




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



17

सं० 98]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 1979/वैशाख 13, 1901

No. 98]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 3, 1979/VAISAKHA 13, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली 3 मई, 1979

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 35-ई टी सी (पी एन)/79

विषय: अप्रैल 1979—मार्च 1980 के लिए निर्यात नीति।

निसल संख्या 19/1/78-ई-2 से जारी अप्रैल 1979—मार्च, 1980 के लिए निर्यात नीति पुस्तक इस सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध में दी जाती है।

2 निम्नलिखित श्रुतियां निर्यात-नीति में संकेतिक उचित स्थानों पर की जाएंगी :—

क्रम	संदर्भ	श्रुतियां
1	2	3
1.	पृष्ठ सं० 13, क्रम सं० 24 (7)(क)(5)	कालम 2 में "लोडिफायलिया" शब्द के स्थान पर "लोडिफोसिया" पढ़ें।
2.	पृष्ठ सं० 13, क्रम सं० 24 (7) 17।	कालम 3 में शब्द "पिचम" के स्थान पर "पिचर" पढ़ें।

1	2	3
3.	पृष्ठ सं० 16, क्रम सं० (1)(क)(2)।	कालम 2 में शब्द "बोक्सिट" के स्थान पर "बाक्साइट" पढ़ें।
4.	पृष्ठ 16, क्रम सं० 45(8) कालम 3, शर्त 2।	शब्द "एविंग" के स्थान पर "हेविंग" पढ़ें।
5.	पृष्ठ 17, क्रम सं० 45(10)	कालम 3 में "सिलिमोनाइट" शब्द के स्थान पर "सिलिमोनाइट" पढ़ें।
6.	पृष्ठ 17, क्रम सं० 45(13) 2 कालम 2।	शब्द "केरिएबल" के स्थान पर "क्राइबल" पढ़ें।
7.	पृष्ठ 17, क्रम सं० 45(13) 3 कालम 2	शब्द "केरिएबल" के स्थान पर "क्राइबल" पढ़ें।
8.	पृष्ठ 18, क्रम सं० 50 (1) कालम 2	शब्द "प्रिवाइडिड" के स्थान पर "प्रोवाइडिड" पढ़ें।
9.	पृष्ठ 20, क्रम सं० 63, कालम 2	शब्द "लिक वर्म" के बीच में कॉमा (,) को हटा दिया जाए।
10.	पृष्ठ 24, क्रम सं० 84 कालम 3 की शर्त 3।	शब्द "फिल्ली" के स्थान पर "फिल्ली" पढ़ें।

1	2	3
11. पृष्ठ 65, क्रम सं० 22(17)(ख)	शब्द "ग्रेड" के स्थान पर "ग्रेड" पढ़ें।	
12. पृष्ठ 70 क्रम सं० 70(5)	शब्द "फ्लास्क" के स्थान पर "फ्लैक्स" पढ़ें।	
13. पृष्ठ 70 क्रम सं० 70(6)	शब्द "फ्लास्कम" के स्थान पर "फ्लैक्स" पढ़ें।	
14. पृष्ठ 70 क्रम सं० 70(12)	शब्द "रियर" के स्थान पर "रियल" पढ़ें।	
15. पृष्ठ 75 क्रम सं० 30 क कालम 4	शब्द "इन्फोमेशन" के स्थान पर "इन्फार्मेशन" पढ़ें।	
16. पृष्ठ 17, क्रम सं० 37 शर्त (3) कालम 4	द्वितीय पंक्ति में आने वाले शब्द "भारतीय" को "भारत" के रूप में पढ़ा जाए।	
17. पृष्ठ 77, क्रम सं० 38, कालम 4 शर्त 1(क)	"वी टेक्सटाइल" शब्दों के बीच में "कॉटन" शब्द जोड़ा जाए।	
18. पृष्ठ 77, क्रम सं० 38, कालम 4 शर्त 2	चतुर्थ पंक्ति में आने वाले शब्द "ग्रीफ" को "ग्रा" शब्द के रूप में पढ़ा जाए।	
19. पृष्ठ 78 क्रम सं० 51 कालम 3	"89(1)" के रूप में आने वाले ग्रीक को 89(2) के रूप में पढ़ा जाए।	
20. पृष्ठ 81 क्रम सं० 65 की उप-मद 21, कालम 2	शब्द "ग्रेड" के स्थान पर "ग्रेड" पढ़ें।	

3. निम्नलिखित शुद्धियाँ इस पुस्तक के उचित स्थानों पर शामिल की गई समझी जाएं :—

क्रम सं०	संदर्भ	शुद्धियों का स्मरण
1.	पृष्ठ 8, क्रम सं० 4(ख), कालम 1 एवं 2	वर्तमान क्रम सं० 4(ख) 6 के स्थान पर निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "4(ख) 7 ग्रेड स्टेज-हार्न (अर्ध-संसाधित)"
2.	पृष्ठ 8 और 9, क्रम सं० 4 कालम 3	वर्तमान प्रत्युक्ति के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "लेकिन मोर की पूछ के पंखों के निर्यात के लिए ऐसे किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।"
3.	(1) पृष्ठ 25, क्रम सं० 88 कालम 2 (2) पृष्ठ 28, अनुबन्ध 1, क्रम सं० 30 कालम 2	"रेलवे बैगन" शब्दों के पश्चात "पेसेन्जर कोचेज एण्ड लोकोमोटिव" जोड़ा जाएगा।
4.	पृष्ठ 67, क्रम सं० 4(ख)	वर्तमान क्रम सं० 4(ख) 6 के पश्चात निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "4(ख) 7 ग्रेड स्टेज हार्न (अर्ध-संसाधित)"

1	2	3
5.	(1) पृष्ठ 70, क्रम सं० 88 (2) पृष्ठ सं० 85, क्रम सं० 26 कालम 2	रेलवे बैगन शब्दों के पश्चात "पेसेन्जर कोचेज एण्ड लोकोमोटिव" जोड़ा जाएगा।

[मिसिल संख्या 19/1/78-ई 2 से जारी]
का० वें० शेषाद्रि, मुख्य निबंधक, आयात निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

(Department of Commerce)

New Delhi, the 3rd May, 1979.

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 35-ETC(PN)/79

Subject :— Export Policy for April, 1979--March, 1980.

Issued File No. 19/1/79 II:—The Export Policy book for the period April, 1979--March, 1980 is contained in the annexure to this Public Notice.

2. The following errata shall be made to it at the appropriate places indicated :

S. No.	Reference	Erratum
1	2	3
1.	Page 13, S.No. 24(vii)(a) 5	For the word "Latifolia" in col. 2 read "Latifolia"
2.	Page 13, S. No. 24(vii) 17	For the word "Pitchen" in col. 3 read "Pitcher"
3.	Page 16, S. No. 45(i)(a)(ii)	For the word "Bauuxit" in col. 2 read "Bauxite"
4.	Page 16, S. No. 45 (viii) col. 3 condition 2	For the word "aving" read "having"
5.	Page 17, S. No. 45 (x)	For the word "Silimanite" in col. read "Sillimanite"
6.	Page 17, S. No. 45 (xiii) 2 col. 2	For the word "fairable" read "fariable"
7.	Page 17, S. No. 45 (xiii) 3 col. 2	For the word "faarible" read "Friable"
8.	Page 18, S. No. 50(i) col. 2	For the word "priveded" read "provided"
9.	Page 20, S. No. 63 col. 2	The comma (,) between the words "silk worm" may be deleted
10.	Page 24, S. No. 84 condition 3 in col. 3	For the word "freelly" read "freely"
11.	Page 65, S. No. 22(xvii)(b)	For the word "grode" read "grade"
12.	Page 70, S. No. 70(v)	For the word "flask" read "flax"
13.	Page 70, S. No. 70(vi)	For the word "flaxs" read "flax"
14.	Page 70, S. No. 70(xii)	For the word "Rare" read "Real"
15.	Page 75, S. No. 30A col. 4	For the word "infofimation" read "information"
16.	Page 77, S.No. 37, condition (iii) col. 4	The word "Indian" appearing in the second line may be read as "India"

1	2	3
17. Page 77, S. No. 38, col. 4, condition 1(a)	Between words "the Textile" and word "Cotton"	
18. Page 77, S. No. 38, col. 4, condition 2	The word "of" appearing in fourth line may be read as "or"	
19. Page 78, S. No. 51, col. 3	The figure appearing as "89(i)" may be read as "89 (ii)"	
20. Page 81, Sub-item 21 of S. No. 65, col. 2	For "word" read "wood".	

3. The following corrections shall be deemed to have been incorporated at appropriate places in the book :—

S. No.	Reference	Details of correction
1	2	3
1.	Page 8, S. No. 4 (b) cols. 1 and 2	The following shall be added after the existing S. No. 4(b)6: "4(b)7—shed stage-horns (semi processed)"

1	2	3
2.	Page 8 and 9, S No. 4 col. 3	The following shall be added at the end of existing remarks:— "However, no such certificate is necessary for exporting Peacock Tail Feathers"
3.	(i) Page 25, S.No. 88 col.2 } (ii) Page 28, Annexure I, S. No. 30, col. 2 }	After the words "Railway Wagons" add "Passenger coaches and locomotives"
4.	Page 67, S. No. 4(b)	The following shall be added after the existing S. No. 4(b)6 "4(b)7—Shed stag horns (semi processed)
5.	(i) Page 70, S. No. 88 } (ii) Page 85 S. No. 26 } column 2 }	After the words "Railway Wagons" add "passenger coaches and locomotives"

[Issued From File No. 19/1/79-EII]

K. V. SESHADRI,
Chief Controller of Imports & Exports

